

वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि
(एम. कॉम (पुराना)
प्रथम वर्ष

सत्रीय कार्य
2026–2027

जुलाई 2026 तथा जनवरी 2027 प्रवेश सत्र के लिए



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली – **1100 68**



सत्रीय कार्य – 2026–2027

प्रिय छात्र/छात्राओं,

जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका में स्पष्ट किया गया है, इस कार्यक्रम में आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक सत्रीय कार्य करना है। सभी सत्रीय कार्य आपको एक साथ भेजे जा रहे हैं।

अंतिम परीक्षा में सत्रीय कार्य के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। सत्रांत परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि समय सूची के अनुसार आप इन सत्रीय कार्यों को पूरा करके भेज दें। सत्रीय कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसे आपके पास अलग से भेजा गया है।

यह सत्रीय कार्य दो प्रवेश सत्र अर्थात् **(जुलाई 2026 और जनवरी 2027)** के लिए वैध है, इसकी वैधता निम्नलिखित है :-

1. जो **जुलाई 2026** में पंजीकृत है उनकी वैधता **जून 2027** तक है।
2. जो **जनवरी 2027** में पंजीकृत है उनकी वैधता **दिसंबर 2027** है।

यदि आप जून सत्रांत परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो इन्हें **15 मार्च** तक अवश्य जमा कर दें। यदि आप दिसम्बर सत्रांत परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप इन्हें **15 अक्टूबर** तक अध्ययन केंद्र के संयोजक के पास जमा कर दें।

अध्यापक जांच सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम का कोड	:	आई. बी. ओ. -04
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	निर्यात - आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण
सत्रीय कार्य का कोड	:	आई. बी. ओ. -04/ टी. एम. ए. / 2026-27
खण्डों की संख्या	:	सभी खण्ड

अधिकतम अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए

- व्यापारिक प्रलेख कौन से हैं ? जहाजी बिल्टी तथा विनिमय बिल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथ ही, भारत में उपलब्ध मुख्य निर्यात प्रोत्साहनों का वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि उनका दावा पेश करने के लिए किन प्रलेखों की आवश्यकता पड़ती है। (4+8 +8)
- (क) प्रलेखीय साख क्या है? उदाहरणों के साथ साख पत्र के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाएं। (10+10)
(ख) विदेशी मुद्रा नियंत्रण से क्या तात्पर्य है ? विदेशी मुद्रा के विनियमन एवं प्रबंध से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
- निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए:** (4X5)
(क) FOB अनुबंध के तहत विक्रय पूरे देश के लिए लाभदायक है।
(ख) अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की फैक्ट्रिंग सेवाएं प्रदान करने का अधिकार व्यापारिक बैंको को दिया गया है।
(ग) एक निर्यात लाइसेंस धारक किसी अन्य पक्ष के माध्यम से निर्यात नहीं कर सकता।
(घ) एक्सपोर्ट से होने वाले मुनाफे पर आयकरसे छूट नहीं मिलती है।
- निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए:** (4X5)
(क) देशीय विक्रय अनुबंध और निर्यात विक्रय अनुबंध
(ख) पोत –लदान पूर्व वित्त और पोत लदानोत्तर वित्त
(ग) मानक पॉलिसी और विशिष्ट पॉलिसी
(घ) शुल्क वापसी योजना और शुल्क – मुक्त योजना
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:** (4X5)
(क) समनिर्यात (Deemed Export)
(ख) क्रेता की साख (Buyer's Credit)
(ग) भारत व्यापार संवर्धन संगठन
(घ) निय –पोत चार्टर